



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022

आषाढ़ 24, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 766/9-1-2022-46टी0ए0-22

लखनऊ, 15 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-343

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4350-ए/नौ-86-टी0/50 दिनांक 12 फरवरी, 1955 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत धौरहरा, जिला लखीमपुर-खीरी के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4350-ए/नौ-86-टी0/50 दिनांक 12 फरवरी, 1955 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत आर्थिक महत्व और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ -क, के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत धौरहरा, जिला लखीमपुर-खीरी के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत धौरहरा, जिला-लखीमपुर-खीरी के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	दिशा	ग्राम मजरा का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाटा संख्या
1	उत्तर	काजीपुरवा, ग्राम धौरहरा	01 से 70 तक
		गोरखापुर	97 से 125 तक
		रामबट्टी ग्राम धौरहरा	2083 से 2140 तक 2204 से 2314 तक 2134/4880, 2308/4873
		लालापुरवा ग्राम धौरहरा	3038, 3039 3041 से 3083 तक 3177 से 3180 तक
2	पूर्व	ग्रिन्ट पुरवा ग्राम धौरहरा	3181 से 3204 तक 3409 से 3424 तक 3426, 3440 से 3443, 3411/ 4884
		ग्राम धौरहरा	3464 से 3498 तक 3540 से 3549 तक 3561 से 3576 तक 3583 से 3591 तक
3	दक्षिण	ग्राम धौरहरा	1758, 1759 1766 से 1774 तक 1777 से 1779 तक 1790 से 1812 तक 3671 से 3678 तक, 1772/4876
4	पश्चिम	फत्तेपुर ग्राम धौरहरा	131 से 141 तक 174 से 225 तक, 239 249 से 302 तक 508 से 511 तक 521 से 551 तक 618 से 661 तक, 667 734 से 760 तक 1096 से 1103 तक, 239/4894

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 766/IX-1-2022-46T.A.-22, dated July 15, 2022:

No. 766/IX-1-2022-46T.A.-22

Dated Lucknow, July 15, 2022

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) (hereinafter referred to as the "said Act") and in partial modification of notification no. 4350-A/IX-86-T/50 dated February 12, 1955 and other previous notifications issued in this behalf, including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Dhaurahra in District Lakhimpur-Kheri, is hereby published for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Principal Secretary, Nagar Vikas Anubhag-1, Uttar Pradesh Shasan, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Notification

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 4350-A/IX-86-T/50 dated February 12, 1955, and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities to the economic importance and such other factors, is pleased to include the areas specified in the Schedule below, in the transitional area of Nagar Panchayat Dhaurahra in District Lakhimpur-Kheri for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Dhaurahra in District Lakhimpur-Kheri

Sr. No.	Direction	Name of Village/Majra	Gata number to be included
1	North	Kajipurwa Village Dhaurahra	01 to 70
		Gorkhapur	97 to 125
		Rambatti Village Dhaurahra	2083 to 2140 2204 to 2314 2134/4880, 2308/4873
		Lalapurwa Village Dhaurahra	3038, 3039 3041 to 3083 3177 to 3180
2	East	Grantpurawa Village Dhaurahra	3181 to 3204 3409 to 3424 3426, 3440 to 3443, 3411/4884
		Village Dhaurahra	3464 to 3498 3540 to 3549 3561 to 3576 3583 to 3591

3	South	Village Dhaurahra	1758, 1759 1766 to 1774 1777 to 1779 1790 to 1812 3671 to 3678, 1772/4876
4	West	Fattepur Village Dhaurahra	131 to 141 174 to 225, 239 249 to 302 508 to 511 521 to 551 618 to 661, 667 734 to 760 1096 to 1103, 239/4894

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.